



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या— 598
09/08/2017

**सोलहवीं विधान का सातवाँ सत्र 21 अगस्त से
25 अगस्त तक आहूत**

पटना—09 अगस्त, 2017 :- सोलहवीं विधान का सातवाँ सत्र 21 अगस्त से 25 अगस्त तक सभावेश्म, पटना में आहूत है। इस संदर्भ में विधान सभा उपसचिव से प्राप्त सूचनानुसार 21 अगस्त सोमवार को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो), सत्रान्तराल में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों के सदन पटल पर रखे जाने (यदि हो), वित्तीय वर्ष 2017—18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के उपस्थापन तथा शोक प्रकाश (यदि हो), के कार्यक्रम हैं। मंगलवार तथा बुधवार क्रमेण दिनांक 22 एवं 23 अगस्त को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य लिए जाएँगे, वृहस्पतिवार दिनांक—24 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2017—18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक लिए जाएँगे। अंतिम दिन अर्थात्— शुक्रवार, दिनांक— 25 अगस्त, 2017 को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) लिए जाएँगे।
